

**\*1-अवैध शराब के साथ अभियुक्त गिरफ्तार थाना बिलारी:-\***

अवगत कराना है कि दिनांक 02.06.2022 की रात्रि में उ0नि0 श्री अमित कुमार थाना बिलारी द्वारा हमराही पुलिस बल की मदद से अभियुक्त धर्मवीर पुत्र आराम सिंह निवासी ग्राम स्योडारा थाना बिलारी, मुरादाबाद को 10 पव्वे अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध थाना बिलारी पर मु0अ0सं0 225/2022 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

**\*2-गांजा के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार थाना कांठ:-\***

अवगत कराना है कि दिनांक 02.06.2022 की रात्रि में उ0नि0 श्री राजीव कुमार थाना कांठ द्वारा हमराही पुलिस बल की मदद से अभियुक्त सब्बन पुत्र इब्राहिम निवासी ग्राम सलेमपुर थाना कांठ जिला मुरादाबाद को 1.50 किलोग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध थाना कांठ पर मु0अ0सं 207/2022 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया।

**\*3-अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने एवं आत्महत्या का दृष्टरेण करने के 02 आरोपी गिरफ्तार थाना कुन्दरकी:-\***

अवगत कराना है कि दिनांक 02.06.2022 को वादी निवासी थाना कुन्दरकी क्षेत्रान्तर्गत ने अभियुक्तगण द्वारा वादी की पुत्री की अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने जिससे वादी की पुत्री द्वारा आत्महत्या कर लेने के सम्बन्ध में थाना कुन्दरकी पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर थाना कुन्दरकी पर मु0अ0सं0 126/2022 धारा 306/34 भादवि व 67A IT Act पंजीकृत किया गया। उक्त के क्रम में आज दिनांक 03.06.2022 को उ0नि0 श्री बृजेश कुमार थाना कुन्दरकी द्वारा हमराही पुलिस बल की मदद से अभियुक्तगण 1-अली अहमद पुत्र फारुख 2-उमर पुत्र इरफान निवासीगण हाश नंगला थाना कुन्दरकी, मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया।

**\*4-02 गौवंशीय पशु को वध करने ले जाते हुए 02 गौ तस्कर गिरफ्तार, थाना मूढापाडे:-\***

अवगत कराना है कि आज दिनांक 03.05.2022 को उ0नि0 श्री विवेक कुमार थाना मूढापाडे द्वारा मय हमराही पुलिस बल सहित बब्बन पुत्र जमील निवासी ग्राम खानपुर लखी थाना मूढापाण्डे मुरादाबाद व अनीस पुत्र नसीर अहमद निवासी ग्राम पैपटपुरा थाना मूढापाण्डे को 02 गोवंशीय पशुओं को वध हेतु ले जाते हुए वध करने के उपकरण सहित गिरफ्तार किया गया। इस संबंध थाना मूढापाडे पर मु0अ0सं0--132/22 धारा 3/5क/8 सीएस एक्ट व 11 पशु क्रुरता अधिनियम पंजीकृत किया गया।